

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2013 (आषाढ 17, 1935)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री हरवंश सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष,
- (2) श्री सुभाष यादव, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री,
- (3) श्री विद्याचरण शुक्ल, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य,
- (4) श्रीमती भावना चीखलिया, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,
- (5) श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री महेन्द्र कर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री नंदकुमार पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (8) श्री कुसुमकांत जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री गौरीशंकर कौशल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) श्री उदय मुदलियार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (11) श्री अनंतराम वर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (12) श्री सुप्यार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (13) उत्तराखंड के चार धाम क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार —

- (1) मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013),
- (2) मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013); तथा
- (3) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013)

पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2013 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, पन्ना जिले की भीतरी-मटपुरी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के सबलगढ़ क्षेत्र की दूरस्थ बसाहटों में हैण्डपंप खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

भोपाल :
दिनांक : 7 जुलाई, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा